

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
माध्यमिक
कार्यपत्रक-12
पाठ-12 हास

1. आपके दोस्त ने मशीन खरीदी। एक उदाहरण की मदद से हास की अवधारणा उसे समझाइए।
2. टूट-फूट, काल समाप्ति, अप्रचलन या किसी अन्य कारण से किसी संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है, उसे हास कहते हैं। इस बयान के प्रकाश में, हास के मुख्य कारणों की व्याख्या करिये।
3. शर्मा ने 1 अप्रैल, 2009 को एक मशीन रु 2,00,000 वाली खरीदी। जिसका अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष था। ये अनुमान लगाया जाता है कि 10 वर्ष के अंत में उसका अवशेष मूल्य रु 20,000 होगा। हर साल लाभ और हानि खाते में लगाए जाने वाले हास की राशि ज्ञात निकालिये। हर साल का हास ज्ञात करने की दर भी निकालिये।
4. क्या आपको लगता है कि संपत्ति पर हास को चार्ज करना आवश्यक है? इसके अलावा, संपत्ति के हास को चार्ज करने के उद्देश्यों के बारे में बताइए।
5. श्री दीपक ने 50,000 रुपये में फर्नीचर खरीदा। वह इस पर हास लगाना चाहते हैं। लेकिन वह हास लगाने की विधि नहीं जानता है। उसे हास के विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं जो वह फर्नीचर पर हास लगाने के लिए अपना सकता है।
6. बंसल उद्यमों ने 1 अप्रैल, 2015 को 50,000 रुपये में मशीन खरीदी। मशीन पर 10% प्रति वर्ष दर से सरल रेखा पद्धति पर द्वारा हास लगाया जाता है। 1 नवंबर, 2018 को मशीन को 15,000 में बेच दिया। मशीन खाता बनाइये अगर खाते 31 मार्च को बंद होते हैं।
7. आपके अनुसार, वे कौन से कारक हैं जो किसी संपत्ति के हास की मात्रा को प्रभावित करते हैं?
8. 1 अप्रैल, 2016 को रिया लिमिटेड ने 1,30,000 रुपये की मशीन खरीदी और इसकी मरम्मत और स्थापना पर 20,000 रुपये खर्च किए।
 30 सितंबर, 2019 को वह मशीन को 50,000 रुपये में बेच दी। वर्ष 2016 से 2019 तक का मशीन खाता तैयार कीजिये, यदि हास 10% वार्षिक दर से क्रमागत पद्धति पर द्वारा लगाया जाता है।
9. आपका दोस्त सरल रेखा पद्धति और क्रमागत पद्धति हास के बीच थोड़ा उलझा हुआ है। उसे दोनों के बीच का अंतर समझाइए।

10. 1 जनवरी, 2007 को एक कंपनी ने रु.80, 000 के लिए एक यंत्र खरीदा। उसी वर्ष 1 जुलाई में एक दूसरा यंत्र रु 18, 000 में खरीदा और रु 2,000 उसको स्थापित करने में खर्च हुए। 1 जुलाई, 2008 को, जो यंत्र 1 जनवरी, 2007 को खरीदा था, बेकार हो गया ,उसे रु 32,500 में बेच दिया। 1 अक्टूबर, 2009 को, एक नया संयंत्र रु 30,000 में खरीदा और उसी तारीख को, जो यंत्र 1 जुलाई, 2007 को खरीदा था, रु 6,000 में बेच दिया। हर साल 31 दिसंबर को मूल लागत पर प्रति वर्ष 10% ह्रास प्रदान किया जाता है। 2007 से 2009 के लिए यंत्र का खाता दिखाइए ।